

भारत सरकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1052  
उत्तर देने की तारीख 02 मार्च, 2016  
12 फाल्गुन, 1937 (शक)

कौशल प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि

†1052. श्रीमती मीनाक्षी लेखी: श्री प्रेम दास राई: श्री दुष्यंत चैटाला:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा कौशल विकास पर गत एक वर्ष में खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) योजना-वार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;
- (ग) निजी कौशल प्रशिक्षण संगठनों को प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण हेतु योजना-वार भुगतान की गई राशि कितनी है;
- (घ) दस सबसे बड़े कौशल प्रशिक्षण संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सबसे अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है; और
- (ङ) क्या कौशल प्रशिक्षण से रोजगार की संभावना बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री राजीव प्रताप रूडी)

(क) से (ङ) विभिन्न सेक्टरों में 18 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 40 से अधिक कौशल विकास स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है और इन मंत्रालयों/विभागों को देश में युवाओं सहित सभी लोगों के कौशलीकरण के संवर्धन का कार्य सौंपा गया है।

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिए (दिसंबर 2015 तक) 18 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न कौशल विकास स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:-

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2014-15	76.12
2015-16	37.44 (दिसंबर 2015 तक)

इसके अलावा, सरकार ने देश में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना के लिए निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), जो कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी निकाय है, का गठन किया है। एनएसडीसी, जो उद्योग-नीत 'लाभ न कमाने वाली कंपनी' है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) से प्राप्त निधि उपलब्ध कराकर कौशल विकास के कार्य में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। चालू वित्त वर्ष 2015-16 के लिए देश भर में कौशल विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा आवंटित/खर्च की गई धनराशि के ब्योरे निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	खर्च निधि (करोड़ रु. में)	प्रशिक्षित व्यक्ति (31.01.2016 की स्थिति के अनुसार)
1	कौशलीकरण	143.00 *	7,33,536
2	उड़ान	60.00	17,281 (नामांकित)
3	स्टार	87.00 *	13,98,745
4	पीएमकेवीवाई	104.50	8,01,741

\*गत वर्ष के अनुपभुक्त के शेष से खर्च की गई राशि।

पूर्ण हुए प्रशिक्षण के आधार पर एनएसडीसी के प्रथम 10 प्रशिक्षण प्रदाताओं का ब्योरा

क्र.सं.	भागीदार का नाम	पूर्ण हुए प्रशिक्षण (1 अप्रैल 16 से 31 जनवरी 16 तक)
1	सेंटम वर्कस्विकल्स भारत सीमित	73754
2	नेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	67649
3	एनआईआईटी युवा ज्योति लिमिटेड	65238
4	आईसेक्ट कौशल मिशन सोसायटी	38504
5	इंडीग्राम कौशल और ज्ञान पहल प्राइवेट लिमिटेड (आई- कौशल)	33754
6	मान देशी फाउंडेशन	29684
7	संयोग माइक्रोमैनेजमेंट	29321
8	डॉन बॉस्को टेक सोसायटी	24903
9	टीएमआई समूह	23350
10	24x7 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	21414

टिप्पणी: चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल, 2015 से 31 जनवरी, 2016) से प्राप्त किए गए आंकड़े

इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से 33 सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) को गठित और प्रचालनरत किया है जो उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कौशलीकरण प्रयासों को संरेखित करने के आशय से उद्योग-नीत निकाय हैं। एसएससी, जिसमें उद्योग, शिक्षण-संस्थानों के सदस्य और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, राष्ट्रीय पेशा मानक (एनओएस) और अर्हता पैक (क्यूपी) निर्धारित करते हैं जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 31 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार इन 33 एसएससी ने युवाओं को रोजगारदेय कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से संरेखित 1664 जॉब रोलों हेतु 4323 विशिष्ट राष्ट्रीय पेशा मानक(एनओएस) तैयार किए हैं।

\*\*\*\*\*